



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 310]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18, 1976/भाद्र 27, 1898

No. 310] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 18, 1976/BHADRA 27, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 18th September 1976

G.S.R. 807(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 14 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 1169, dated the 2nd July, 1963, namely:—

In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that during the period upto 30th November, 1976, the ratio of production of vanaspati in small packs to large packs shall not exceed the average ratio of such production of vanaspati during the period of January to June, 1976, as shown in V.O.P. Form No. 2 furnished by such producers under sub-clause (2) of clause 4 of the said order.”

[No.17-VP(3)/73]

S. V. SAMPATH,

Vegetable Oil Products Controller for India,

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1976

सां० कां० निं० 807(अ).—भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 4 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सां० कां० निं० 1169, तारीख 2 जुलाई, 1963 में निम्नलिखित और सशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, परन्तु के पश्चात् निम्नलिखित परन्तु अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि 30 नवम्बर 1976 तक की अवधि के दौरान छोटे पैकों में वनस्पति के उत्पादन का बड़े पैकों के साथ अनुपात जनवरी, 1976 से जून, 1976 तक की अवधि के दौरान वनस्पति के ऐसे उत्पादन के औसत अनुपात से अधिक नहीं होगा, जैसा कि उक्त आदेश के खण्ड 4 के उपखण्ड (2) के अधीन ऐसे उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत व० ते० उ० प्ररूप सं० 2 में दर्शित है।”

[सं० 17-व० उ० (3)/73]

एस० बी० सम्पत्त;

भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976